

## Speaking at Public Meeting, Dharampur, Uttarakhand

February 07, 2017

कैसे उत्तराखंड भी तेज़ी से जिस प्रकार से पूरा देश तेज़ी से विकास से जुड़ रहा है उसी प्रकार से उत्तराखंड का भी तेज़ विकास हो, उस प्रकार से उत्तराखंड में भी युवा-युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, नए रोज़गार और स्वयं रोज़गार के अवसर मिले | और मैं यहाँ आने के पहले भारतीय जनता पार्टी की देवभूमि उत्तराखंड के प्रति जो दृष्टिकोण है उसको दर्शाता हुआ यह संकल्प पत्र पढ़ रहा था और मुझे ध्यान में आया कि कितनी गहराई से और कितने विषयों के ऊपर ध्यान रखते हुए यह घोषणा पत्र बनाया गया | चाहे वह बुनियादी विकास हो, चाहे वह युवाओं को आगे चलके अच्छी शिक्षा और रोज़गार के अवसर मिले, कैसे नारी शक्ति को और सशक्त बनाया जाये, कैसे उद्योग को और विकास के प्रति तेज़ी से बढ़ाया जाये, नए उद्योग लगे, छोटे, मध्यम वर्गीय उद्योग लगे जो प्रदूषण के बगैर इस प्रदेश में विकास जोड़ सकें, कैसे एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन उत्तराखंड में आये, प्रशासन स्वच्छ हो, जनता की जो दिक्कतें हैं, जनता की जो कठिनाइयाँ हैं उसके प्रति संवेदना हो प्रशासन में | और सबका साथ सबका विकास के हमारे मूल मंत्र में समाज के हर वर्ग को और मुझे कुछ बताया जा रहा था कि यह धरमपुर में कई बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो पहाड़ी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, इन सब विषयों में धरमपुर लिप्त हो जाता है |

और मैं समझता हूँ यही एक फर्क है भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में कि हम सबका साथ, हर क्षेत्र का अपना अलग विकास हो, हर क्षेत्र की अपनी एक requirements होती हैं, उनकी ज़रूरतें होती हैं उनके प्रति संवेदना रखते हुए कैसे उसका विकास हो | और मुझे बड़ी खुशी हुई विनोद जी ने जब कहा कि उन्होंने

अभी से blueprint बनाना शुरू कर दिया है इस क्षेत्र में कैसे सबका साथ लेते हुए सभी का विकास की चिंता करें | और मैं समझता हूँ अब समाज को बांटने का समय खत्म हो गया है, अब समाज का हर वर्ग साथ में चले, साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने भविष्य को जोड़े, अपने उज्ज्वल भविष्य की तरफ अपना मतदान दें | और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ जिस प्रकार से केंद्र में एक भ्रष्टाचार मुक्त इमानदार सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है इसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड के नेतृत्व विकास और ईमानदारी की सरकार आप सबके लिए देने जा रही है | जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी ने कुछ ही महीने पहले चार धाम को जोड़ते हुए 900 km की all-weather cement concrete road जो 12 महीने चले और चौबीसों घंटे जिस के माध्यम से लोग चार धाम की यात्रा करके उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लोगों को भी मौका मिले अलग अलग जगाओं पे जाने का लेकिन पूरे विश्व से यहाँ पे लोग आएँ | यह धार्मिक स्थानों पे जा सकें उससे यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, उससे यहाँ पे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, स्वयं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे | आखिर हर यात्री जो यहाँ आएगा, वह किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आएगा, जाएगा, रहेगा, खर्चा करेगा ढाबों में, टैक्सी के ऊपर, बसों में, रेल गाड़ियों में | जब एक बार चार धाम की यात्रा करने आएगा तो अलग अलग स्थान उत्तराखंड के और बहुत ही सुन्दर स्थान हैं जहाँ पे वह यात्रा करने जाएगा |

और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सुन्दरता को भी सँभालते हुए पर्यटन बढ़े, उसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जुड़े, हाइड्रो पॉवर और जुड़े जिससे प्रदूषण भी उत्तराखंड में ना आये | और इन सब सस्ती ऊर्जा के स्तोत्र जब यहाँ लगेँगे तब उससे आपको तेजी से बहुत सारा रेवेन्यू भी मिलेगा, पैसे मिलेंगे बिजली बेचके पूरे देश को और उस पैसे से आपका विकास हो पाएगा | मैं समझता हूँ वास्तव में

उत्तराखंड में इतनी संभावनाएं हैं विकास की और हमने अपने प्रदेश को वंचित रखा है इस विकास से | उलटे में पीछे देख रहा था विकास के कैसे कैसे लाभ होते हैं उसमें ध्यान में आया कि जब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ लगते हैं तो 12% मुफ्त बिजली उसमें से उत्तराखंड को मिलती है | और जबकि संभावना यहाँ पे हजारों मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की है उसके सामने अभी तक इतनी कम संख्या में शायद ढाई गिगावट, 2,500 MW के करीब हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तराखंड में हैं | और यह दुर्भाग्य की बात है, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट लगेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे नौकरी के अवसर बनेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, निवेश होगा, वह निवेश आखिर अधिकांश यहाँ पे मजदूरी भी लाएगा, अलग अलग स्वयं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ सालों और दशकों के लिए 12% मुफ्त बिजली मिलेगी उत्तराखंड को | जिस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगता है वहाँ अधिक 1% बिजली उस क्षेत्र के लिए मुफ्त मिलेगी और मैं समझता हूँ कि आगे अगर हम यहाँ पे 8,000-10,000 MW नए hydro projects लगाने में सफल हो जाते और उसी में जैसे विनोद जी ने कहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों double engine के रूप में काम करेंगी तो इतनी बिजली आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी कि शायद पूरी उत्तराखंड की requirement मुफ्त बिजली से meet हो सके इतनी संभावना है उत्तराखंड में |

कुल आज के दिन भी 1300-1400 MW खपत है उत्तराखंड में, हम नया उद्योग लायेंगे, नयी पर्यटन को प्रोत्साहन करेंगे तो इसको हम डबल कर सकते हैं अगले पांच वर्षों में | 1300 के बदले 3000 MW यहाँ खपत हो सकती है, सभी को सुनिश्चित किया जा सकता है चौबीसों घंटे बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले जो बार बार जाये नहीं | अभी अभी आने के पहले मैं किधर रुका था चार या पांच बार बिजली गयी 15 मिनट के अन्दर, क्यों उमेश जी चार पांच बार गयी होगी?

प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा में बोल रहे हैं मैं कोशिश कर रहा था वह सुनो लेकिन हर दो-तीन मिनट में बिजली जाती थी आती थी, जाती थी आती थी ।

और मैं समझता हूँ इसको सुनिश्चित करना कि चौबीसों घंटे uninterrupted बिजली आये यह मुश्किल काम नहीं है । केंद्र सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और IPDS जो शहरी क्षेत्रों में सुधिकरण करना है व्यवस्था का उसके लिए सैंकड़ों करोड़ रुपये उत्तराखंड को देती है । लेकिन अब समय आ गया है कि इस देवभूमि का जिस प्रकार से गुरु द्रोण यहाँ पे रहते थे और उन्होंने पूरे शिक्षा के माध्यम से अच्छे सेनानी पैदा किये जैसे ही जो उत्तराखंड से और एक प्रकार से उत्तराखंड आज भी विद्या के क्षेत्र में बहुत प्रमुख भूमिका अदा रहे है । आज भी पूरे देश विदेश से लोग उत्तराखंड आते हैं पढने के लिए इतने अच्छे स्कूल कॉलेज यहाँ पे हैं ।

मैं इसके बाद रूडकी जाने वाला हूँ, IIT Roorkee से निकले हुए छात्र तो पूरे देश और विदेश में अपनी शिक्षा के कारण बहुत नाम कमाते हैं । ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड का तेजी से विकास हो, उत्तराखंड में लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और वह पूरे उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे पाएं । महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा हो, मुफ्त शिक्षा हो, उनके लिए girls hostel बनें पूरे प्रदेश में और शायद हमने ऐसा तय किया है कि हम हर एक कन्या को बीए तक, ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दें जिससे उत्तराखंड में हर कन्या को उचित इज्जत मिले, स्थान मिले, आगे चलके वह एक अच्छी नागरिक बन सके प्रदेश, देश के ।

जो आज की यहाँ पे सरकार है उसके भ्रष्टाकार के इतने सारे कांड उजागर हुए हैं कि उसके बारे में मैं क्या दोहराऊँ और फर्जी घोषणाएं की, पांच वर्ष पहले जो घोषणाएं की थी वह आजतक पूरी नहीं कर पाए । लेकिन हम जो घोषणाएं करते

हैं भारतीय जनता पार्टी उसमें एक एके बिंदु पे चिंता करते हैं कि यह कर सकें ऐसी ही घोषणा करें | हम ऐसी कोई घोषणा नहीं करना चाहते हैं जो लोगों को भ्रमित करे | जब खंडूरी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तब लोकायुक्त का ऐसा मॉडल कानून हमने यहाँ पे पारित किया था जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई थी, शायद अन्ना हजारे जी ने भी उसकी इतनी प्रशंसा की थी कि दुर्भाग्य से वह सरकार अब रही नहीं और गत पांच वर्षों में एक लोकायुक्त भी नहीं नियुक्त कर पाए खंडूरी जी के जाने के बाद | रावत जी ने पांच वर्षों में एक लोकायुक्त तक नियुक्त नहीं किया क्योंकि भ्रष्टाचार के कांड सामने आते शायद उनको तकलीफ हो जाती |

और यह देवभूमि में जो इतनी अपार संभावनाएं हैं यह अपर विकास की संभावनाओं को भ्रष्टाचार लिप्त राज्य सरकार ने शायद खो दिया और मुझे पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का भी विकास होगा | आखिर आपने तीन बार चुनके एक विधायक को यहाँ से भेजा, जितनी भ्रष्टाचार की घटनाएं आपके क्षेत्र की मैंने सुनी उससे मुझे दुःख होता है, मुझे परेशानी होती है कि क्या तीन बार विधायक रहने के बाद भी यही स्थिति रहनी चाहिए आपके सुन्दर क्षेत्र की, धरमपुर क्षेत्र की | और मुझे लगता है अब समय आ गया है कि उनके रिपोर्ट कार्ड को आप सामने रखिये और यह भी देखिये कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं चौबीसों घंटे लोगों की सेवा करने में, अब समय आ गया है कि यह जो देहरादून से यहाँ की सड़क है जिसमें अनाज मंडी को हटाके एक ट्रैफिक जैम जो दिन भर रहता है उसको भी खत्म किया जा सकता है | धरमपुर में लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले उसकी आवश्यकता को पूरी करने की ज़रूरत पड़ती है और एक मंत्री रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे सेवा नहीं कर पाया, यहाँ का विकास नहीं कर पाया तो मैं समझता हूँ जनता को यह मौका है आने वाली 15 तारीख को सबक सिखाने का, जवाब देने का और सवाल पूछने

का कि आपने क्यों इस क्षेत्र को तीन बार विधायक रहने के बावजूद विकास से वंचित रखा, क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं आपके 15 वर्ष के कार्यकाल के बावजूद, आपके 3 terms के कार्यकाल के बावजूद | और 15 तारीख को मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें विनोद चमोली जी को जिस प्रकार से उन्होंने अपने 30 वर्ष के बेदाग राजनीतिक जीवन में जनता की सेवा की है, जिस प्रकार से आने वाली भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की एक अच्छी सरकार, स्थिर सरकार बनाके आपकी सेवा के लिए झूझना चाहती है उसमें धरमपुर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, बिना भेदभाव के पूरा समाज विनोद जी के साथ इस संकल्प में जुड़े कि एक भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार सरकार, विकास के प्रति समर्पित सरकार चुनने में आप सब अपना समर्थन कमल को दें, कमल के बटन पे अपना अंगूठा दबाएँ, अपने कमल के बटन को समर्थन देके विनोद जी को एक विधायक के रूप में भेजेंगे | साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी जी को अपना मूल्य वोट देके विकास के प्रति अपने आप को जोड़ेंगे |

मैं समझता हूँ आप सबको मैं इतनी प्रार्थना करूँगा कि आने वाली 15 तारीख को आप 10 बजे के पहले सुबह अपना खुद का वोट डालें और 10 बजे से शाम तक आप हर घर जाके अपने गली-मुहल्ले में, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, सबको प्रेरित करें कि वह सब भारतीय जनता पार्टी, कमल और विनोद चमोली जी को समर्थन देके एक अच्छी सरकार उत्तराखंड में स्थापित करें, एक आप के प्रति संवेदना रखने वाली ईमानदार, विकास करने वाली सरकार यहाँ पे आये ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ | यहाँ पे बैठा एक एक व्यक्ति कम से कम 25 घरों में जाके उस घर के सब वोट निकाले और विनोद जी को भरी मतों से जिताके इनको राज्य सरकार और नयी आने वाली

राज्य सरकार में धरमपुर भी योगदान दे ऐसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ ।

बहुत बहुत धन्यवाद ।